



प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम - 695 001
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001



P19/IV/DRSSA-104/

Date 2.2.02.2024

To,

✓ All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Payment and Fixation/Revision of Pension/Family Pension/Gratuity and other Terminal Benefits with effect from 01.01.2016, to the retired officials of Bihar Judicial Services – reg.

Ref: 1. G.R. No. 3A-2-P.R.-02/2023/6649/VI dated 28.07.2023, Government of Bihar, Department of Finance.
2. SSA No. Pen-9-3029 dated 09.01.2024 received from the office of the Principal Accountant General (A&E), Bihar

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Principal Accountant General (A&E), Bihar, regarding payment and Fixation/Revision of Pension/Family Pension/Gratuity and other Terminal Benefits with effect from 01.01.2016, to the retired officials of Bihar Judicial Services. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl.: As stated above.

Yours faithfully


Sr. Accounts Officer

Copy to: -

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Pri. Accountant General (A&E)
Bihar, Veerchand Patel Path,
Patna, Bihar – 800 001 - For information only.


Sr. Accounts Officer



PIA

0250579
31/01/24

प्र० महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार,
पटना

OFFICE OF THE Pr. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. Pen-9 - 3029
संख्या :-
Date: 09/01/2024
दिनांक:- 2024

To,

The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigrah	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh, Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E), Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildighn, Dintar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneswar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector- 17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005

23	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
28	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.- 2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No. 3A/2/2023-6649/Ao Bihar - 28/07/23


Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully



Sr. Accounts Officer

50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत क्रमशः पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित किया जायेगा।

उपर्युक्त दोनों सूत्रों से प्राप्त राशि में से जो अधिक लाभकारी होगा वह अंतिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।

- (ग) पूर्ण पेंशन के लिए, पूर्व से विहित, 20 वर्षों की अर्हक सेवा अनिवार्य होगी। 20 वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष से अधिक सेवा होने पर आनुपातिक रूप से पेंशन परिकलित किया जायेगा।
- (iv) बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि उनके नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वित्तीय उन्नयन की तारीख के अनुसार वर्ष में एक बार निर्धारित होगा। पूर्व में निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या-9154, दिनांक-28.09.2022 की कड़िका-4(छ) को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। ऐसे न्यायिक पदाधिकारी जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के अगली तिथि को वेतन वृद्धि परिपक्व होती हो, उन्हें उक्त वेतन वृद्धि का वैचारिक लाभ, ₹2,24,100/- की वेतन सीमा के अधीन, मात्र सेवान्त लाभ हेतु अनुमान्य होगा।
- (v) 'बार' से सीधे बिहार उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्त वैसे पदाधिकारी जो दिनांक-01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, को वास्तविक पेंशन प्रदायी सेवा में उनके द्वारा वकील के रूप में की गई प्रैक्टिस अवधि अथवा अधिकतम 10 वर्ष, दोनों में से जो कम हो, जोड़ कर पेंशन की गणना की जाएगी। उपर्युक्त लाभ के लिए आवश्यक होगा कि सेवा से मुक्त होते समय कम से कम 10 (दस) वर्ष की स्थाई सेवा पूर्ण हो।
- (vi) सी०सी०एस० (पेंशन) रूलस 1972 के नियम-54 के अनुसार पारिवारिक पेंशन, न्यायिक सेवा के पदाधिकारी एवं उनकी पत्नी के मृत्यु उपरांत परिवार के योग्य आश्रितों को 30 प्रतिशत की दर से भुगतये होगी। इस हेतु पात्र होने के लिए परिवार के योग्य आश्रितों की आय 30 हजार रुपये प्रतिमाह से कम होनी चाहिए।
- (vii) अधिसूचना संख्या-जी०एस०आर० 673(इ), दिनांक-19.09.2019 द्वारा सी०सी०एस० (पेंशन) रूलस-1972 के नियम-54 (3), में किये गये संशोधन के अनुरूप पारिवारिक पेंशन का लाभ आश्रितों को प्राप्त होगा।
- (viii) (क) दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन निम्न प्रकार से देय होगा।

क्र. सं.	पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
1	75 वर्ष एवं अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
2	80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
3	85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
4	90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 60%
5	95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 80%

100-0111111
No. Pen-09-Hen-22/23-24/dt-02/01/2024
6649

पत्रांक-3ए-2-वे०पु०-02/2023...../वि०,

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक-28/07/2023

विषय:- बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवान्त लाभ का दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से निर्धारण/पुनरीक्षण एवं भुगतान के संबंध में।

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण का निर्णय संकल्प संख्या-9154, दिनांक-28.09.2022 के द्वारा लिया गया है।

2. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा वेतन, पेंशन, सेवान्त लाभ, भत्तादि के संबंध में की गई अनुशंसा के उपरांत, रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-643/2015 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स एवं एस०एल०पी० (सिविल) संख्या-6471-6473/2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए वेतन एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवान्त लाभों पर दिनांक-19.05.2023 को आदेश पारित किया गया है।

3. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-643/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु राज्य न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवान्त लाभ के संबंध में सम्यक् दिशाशेषरान्त निम्नरूपेण निर्णय लिया गया है-

बिहार न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवान्त लाभ से संबंधित प्रावधान दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होगा।

दिनांक-01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत क्रमशः पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित किया जायेगा।

(iii) दिनांक-01.01.2016 के पूर्व के पेंशनर/परिवार पेंशनर के पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् दो सूत्रों के आधार पर किया जायेगा।

(क) दिनांक-31.12.2015 को प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि में 2.81 का स्तर गुणक से गुणा कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि का निर्धारण किया जायेगा।

(ख) संबंधित पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतनस्तर में प्राप्त मूल वेतन को सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के पश्चात् सभी अनुवर्ती वेतन आयोग/समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतनस्तर से पारिवारिक निर्धारण करते हुए दिनांक 01.01.2016 को शिड्यूल-II के संगत प्रक्रम का

28/07/2023

6	100 वर्ष एवं उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%
---	------------------------	--

नोट:- उपरोक्त तालिका में 'वर्ष' का तात्पर्य पूर्ण वर्ष से है।

(ख) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-7514, दिनांक-23.07.2013 के द्वारा जिन बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को पूर्व में 70-75 वर्ष के आधार पर अतिरिक्त पेंशन राशि अनुमान्य किया गया है, उसका पुनरीक्षण दि०-01.01.2016 के प्रभाव से उपरोक्त तालिका के अनुसार किया जाएगा। परंतु पूर्व में प्राप्त अतिरिक्त पेंशन की राशि वसूलनीय नहीं होगी।

(ix) **मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान :-**

(क) सेवानिवृत्ति उपादान सी०सी०एस० (पेंशन) रूल्स-1972 के नियम 50(1)(a) के अनुसार गणनीय होगा।

(ख) **मृत्यु उपादान** की गणना निम्न तालिका के अनुसार की जाएगी।

सेवा की अवधि	मृत्यु उपादान की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 2 गुना
01 वर्ष या अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 6 गुना
05 वर्ष या अधिक परंतु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक परंतु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या अधिक	सेवा अवधि की प्रत्येक छमाही हेतु परिलब्धियों का आधा, जो परिलब्धियों का 33 गुणा से अधिक न हो।

(ग) **मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान** की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी, महंगाई भत्ता की दर 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उपरोक्त सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(घ) वैसे पदाधिकारी जिन्हें अपुनरीक्षित दर के आधार पर उपादान का भुगतान किया गया है, उन्हें दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण के उपरांत उपादान के अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।

4. पेंशन/परिवार पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, उपादान तथा अन्य सेवांत लाभ के बकाये का 25 प्रतिशत का भुगतान दिनांक-31.08.2023 तक, अगला 25 प्रतिशत दिनांक-31.10.2023 तक एवं शेष 50 प्रतिशत का भुगतान दिनांक-31.12.2023 तक किया जायेगा।

5. बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवांत लाभ का दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से निर्धारण/पुनरीक्षण एवं भुगतान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

21/11/2023

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2023 6649 /वि० पटना, दिनांक 28/07/2023

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2023 6649 /वि० पटना, दिनांक 28/07/2023

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2023 6649 /वि० पटना, दिनांक 28/07/2023

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमुखतीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/ प्रगारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) / प्रगारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2023 6649 /वि० पटना, दिनांक 28/07/2023

प्रतिलिपि- सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एकजीबिशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर० ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, श्री राम भवन, पाम ट्री के सामने, पटना/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फ्रेजर रोड, पटना/ क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, आर० ब्लॉक, चाणक्य टॉवर, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

51-5218 Jk/11

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

no✓

[5]

ज्ञापक- 3ए-2-वे०पु०-02/2023 6649 /वि० पटना, दिनांक 28/07/2023

प्रतिलिपि- सरकार के विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25.07.2023 के मद् संख्या-32 के आक्षेप में सूचनार्थ प्रेषित।

(लीकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।


28/7/2023

0 - 0 - 0

SCHEDULE-II (FITMENT)

क्र.सं.	अपुनरीक्षित प्रक्रम (दि० 01.01.96 से 31.12.05 तक)	अपुनरीक्षित प्रक्रम (दि० 01.01.06 से 31.12.15 तक)	दिनांक-01.01.2016 से पुनरीक्षित प्रक्रम
1	9000	27700	77840
2	9250	28470	80180
3	9500	29240	82590
4	9750	30010	85070
5	10000	30780	87620
6	10250	31550	90250
7	10500	32320	92960
8	10750	33090	95750
9	11050	34010	95750
10	11350	34930	98620
11	11650	35850	101580
12	11950	36770	104630
13	12250	37690	107770
14	12550	38610	111000
15	12850	39530	114330
16	13150	40450	114330
17	13500	41530	117760
18	13850	42610	121290
19	14200	43690	124930
20	14550	44770	128680
21	14900	45850	132540
22	15250	46930	132540
23	15600	48010	136520
24	15950	49090	140620
25	16350	50320	144840
26	16750	51550	149190

27	17150	52780	149190
28	17550	54010	153670
29	17950	55240	158280
30	18350	56470	163030
31	18750	57700	163030
32	19150	58930	167920
33	19600	60310	172960
34	20050	61690	178150
35	20500	63070	178150
36	20950	64450	183490
37	21400	65830	188990
38	21850	67210	188990
39	22350	68750	194660
40	22850	70290	199100
41	23350	71830	205070
42	23850	73370	211220
43	24350	74910	217560
44	24850	76450	224100


 21-12-2011

**GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF FINANCE
RESOLUTION**

Patna, Dated 28.07.2023

Sub : Payment and Fixation/Revision of Pension/Family Pension/Gratuity and other Terminal Benefits with effect from 01.01.2016, to the retired officials of Bihar Judicial Services – reg.

In the light of the recommendations of Second National Judicial Pay Commission, decision has been taken for the revision of pay of the officials of State Judicial Services with effect from 01.01.2016, vide Resolution No. 9154, dated 28.09.2022.

2. After the recommendations made by the Second National Judicial Pay Commission regarding Pay, Pension, Terminal Benefits and Allowances etc., in Writ Petition (Civil) No. 643/2015 All India Judges Association Vs Union of India and Others and SLP (Civil) No. 6471-6473/2020, orders have been passed by the Hon'ble Supreme Court, New Delhi on 19.05.2023 on the Pay, Pension/Family Pension/Gratuity and other Terminal Benefits of the officials of State Judicial Services.

3. For compliance of the orders passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 643/2015 on the recommendations of Second National Judicial Pay Commission, after due consideration the following decisions have been taken regarding the Pension/Family Pension/Gratuity and other Terminal Benefits of retired officials of State Judicial Services:

- i. The provision regarding Pension/Family Pension/Gratuity and other Terminal Benefits of the retired officials of Bihar Judicial Services will be effective from 01.01.2016.
- ii. In respect of the officials retired after 01.01.2016, 50% and 30% of the last pay drawn at the time of retirement will be fixed as pension and family pension respectively.
- iii. The revision of pension of pre 01.01.2016 pensioners/family pensioners will be done as per following two formulae.
 - a. The amount of Pension/Family Pension will be fixed by multiplying the pension/family pension receivable on 31.12.2015 with the constant multiplier of 2.81.
 - b. After the date of retirement/death of the concerned official, the basic pay received in their pay scale/pay level as on the date of retirement/death will be fixed notionally in the substitute pay scale/pay level, in the light of the recommendations of all subsequent pay commissions/committees and 50% and 30% of the relevant stage of Schedule-II as on 01.01.2016 will be fixed as pension and family pension respectively.

Out of the amounts derived from both the above formulae, whichever will be more beneficial, shall be sanctioned as last pension/family pension.

- c. For full pension, pre-determined qualifying service of twenty years will be mandatory. In case of less than twenty years but more than 10 years of service, pension will be calculated proportionately.
- iv. The date of annual increment of the officials of Bihar Judicial Services will be determined once in a year as per the date of their appointment, promotion and financial upgradation. Para-4 (g) of Resolution no.9154 of Department of Finance dated 28.09.2022 issued earlier, shall be deemed revised to this extent. To those judicial officials whose increment matures on the next date of the date of their retirement, notional benefit of the said increment, subject to pay limit of Rs.2,24,100/- will be permissible for terminal benefits only.
- v. Calculation of pension of those officials directly appointed in Bihar Higher Judicial Services from BAR who have retired before 01.01.2016, will be done by adding the period of practice done by them as an advocate or maximum 10 years, whichever is less, in actual service for grant of pension. For the above benefit, it is required that at least 10 (ten) years of permanent service should be completed at the time of retirement.
- vi. As per Rule-54 of CCS (Pension) Rules 1972, after the death of the official of judicial services and his wife, family pension at the rate of 30% will be payable to eligible dependents of the family. To be eligible for the same, monthly income of the eligible dependents of the family should be less than Rs.30 thousand per month.
- vii. The dependents will receive the benefit of family pension as per the amendments made in Rule-54(3) of CCS (Pension) Rules 1972 vide Notification No. GSR 673(E), dated 19.09.2019.
- viii. (a) Additional pension based on age for pension/family pension with effect from 01.01.2016 will be payable as below.

Sl. No.	Age of Pensioner/Family Pensioner	Amount of Additional Pension
1.	75 years and more but less than 80 years	20% of revised basic pension/family pension
2.	80 years and more but less than 85 years	30% of revised basic pension/family pension
3.	85 years and more but less than 90 years	40% of revised basic pension/family pension
4.	90 years and more but less than 95 years	60% of revised basic pension/family pension
5.	95 years and more but less than 100 years	80% of revised basic pension/family pension
6.	100 years and more	100% of revised basic pension/family pension

Note:- In above table 'Year' means 'Full Year'.

(b) The amount of additional pension permitted earlier to those retired officials of Bihar Judicial Services based on 70-75 years, through Resolution No. 7514 dated 23.07.2013 of the Department of Finance, will be revised w.e.f.01.01.2016, as per the above table. But the amount of additional pension received earlier will not be recoverable.

ix. **Death-Cum-Retirement Gratuity**

- a. Retirement gratuity will be calculated as per Rule 50(1) (a) of CCS (Pension) Rules 1972.
- b. Calculation of death gratuity will be done as per the table below.

Service Tenure	Rate of Death Gratuity
Less than 1 year	2 times of monthly emoluments
01 year or more, but less than 5 years	6 times of monthly emoluments
05 years or more, but less than 11 years	12 times of monthly emoluments
11 years or more, but less than 20 years	20 times of monthly emoluments
20 years or more	Half of the emoluments for each half year of service tenure, which is not more than 33 times of the emoluments

- c. The maximum limit of **Death-Cum-Retirement Gratuity** will be Rs.20 lakh, when the rate of dearness allowance exceeds 50%, there will be an increase of 25% in the above limit.
- d. Such officials who have been paid gratuity based on unrevised rate, will be paid the amount of difference of gratuity after revision of pay with effect from 01.01.2016.

4. Payment of 25% of the arrears of Pension/Family Pension, Additional Pension, Gratuity and other Terminal Benefits will be made by 31.08.2023, next 25% by 31.10.2023 and remaining 50% by 31.12.2023.

5. The fixation/revision and payment of Pension/Family Pension/Gratuity and other Terminal Benefits of retired officials of Bihar Judicial Services will be done with effect from 01.01.2016.

By orders of the Governor of Bihar

Sd/

(Lokesh Kumar Singh)

Secretary (Resources), Department of Finance

- c. For full pension, pre-determined qualifying service of twenty years will be mandatory. In case of less than twenty years but more than 10 years of service, pension will be calculated proportionately.
- iv. The date of annual increment of the officials of Bihar Judicial Services will be determined once in a year as per the date of their appointment, promotion and financial upgradation. Para-4 (g) of Resolution no.9154 of Department of Finance dated 28.09.2022 issued earlier, shall be deemed revised to this extent. To those judicial officials whose increment matures on the next date of the date of their retirement, notional benefit of the said increment, subject to pay limit of Rs.2,24,100/- will be permissible for terminal benefits only.
- v. Calculation of pension of those officials directly appointed in Bihar Higher Judicial Services from BAR who have retired before 01.01.2016, will be done by adding the period of practice done by them as an advocate or maximum 10 years, whichever is less, in actual service for grant of pension. For the above benefit, it is required that at least 10 (ten) years of permanent service should be completed at the time of retirement.
- vi. As per Rule-54 of CCS (Pension) Rules 1972, after the death of the official of judicial services and his wife, family pension at the rate of 30% will be payable to eligible dependents of the family. To be eligible for the same, monthly income of the eligible dependents of the family should be less than Rs.30 thousand per month.
- vii. The dependents will receive the benefit of family pension as per the amendments made in Rule-54(3) of CCS (Pension) Rules 1972 vide Notification No. GSR 673(E), dated 19.09.2019.
- viii. (a) Additional pension based on age for pension/family pension with effect from 01.01.2016 will be payable as below.

Sl. No.	Age of Pensioner/Family Pensioner	Amount of Additional Pension
1.	75 years and more but less than 80 years	20% of revised basic pension/family pension
2.	80 years and more but less than 85 years	30% of revised basic pension/family pension
3.	85 years and more but less than 90 years	40% of revised basic pension/family pension
4.	90 years and more but less than 95 years	60% of revised basic pension/family pension
5.	95 years and more but less than 100 years	80% of revised basic pension/family pension
6.	100 years and more	100% of revised basic pension/family pension

Note:- In above table 'Year' means 'Full Year'.

(b) The amount of additional pension permitted earlier to those retired officials of Bihar Judicial Services based on 70-75 years, through Resolution No. 7514 dated 23.07.2013 of the Department of Finance, will be revised w.e.f.01.01.2016, as per the above table. But the amount of additional pension received earlier will not be recoverable.